



मेष राशि

वाले

वर्ष 2018 में

क्या उपाय करें...

क्या

न

करें...



क्या न करें वर्ष 2018 में

- * कभी-कभी आपको अपने साथ भी बैठना चाहिए।
स्वालोचन व स्वा-ध्याय करना चाहिए।
- * अपनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।
- * अत्यधिक चतुराई असफलता का कारण बन सकती है। इस पर ध्यान देना चाहिए।

क्या उपाय करें वर्ष 2018 में

स्वास्थ्य में सुधार के लिए

- * हर रोज नित्यक्रम से निवृत्त हो स्नानोपरांत एक पाठ हनुमान बाहु का अवश्य करना चाहिए।
- * पक्षियों को दाना डालें व पानी रखें।

पारिवारिक सुख-शांति व बाधा निवारण के लिए

- * हर रोज रात्रि में 8 से 12 बजे के बीच में चौमुखा घी का दीपक जलाएं और सुंदरकांड का पाठ करें।
- * शिव उपासना व शिवलिंग पर षडाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए जलाभिषेक करें।
- * लाल धागे में तीन मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना शुभ फल देगा।

आर्थिक सुदृढ़ता के लिए

- * प्रतिदिन संकटमोचन हनुमाष्टक का पाठ करना चाहिए।
- * हर मंगलवार को श्रद्धानुसार गुड़ अपने ऊपर से 7 बार उसारकर किसी सफाई कर्मचारी विधवा महिला को दान दें।
- * व्यवसाय में विशेष रुकावट के लिए गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करें।

संपूर्ण समस्याओं के निवारण के लिए 3 मुखी ग्यारह दानें रुद्राक्ष लाल धागे में सोमवार के दिन शुभ महूर्त में धारण करें। स्वच्छता का ध्यान रखें।